

BIHAR BOARD QUESTION PAPER

हिन्दी माध्यम / ENGLISH MEDIUM

INTERMEDIATE EXAMINATION - 2012

इंटरमीडिएट परीक्षा - 2012

(ANNUAL / वार्षिक)

BUSINESS ECONOMICS

समय : 3 घंटे 15 मिनट]

[पूर्णांक : 100

SECTION-A

प्रश्न संख्या 1 से 25 तक में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही विकल्पों को चुनें एवं उत्तर-पत्र में चिह्नित करें :

1. आवश्यक वस्तुओं की माँग की मूल्य लोचकता होती है

- (a) शून्य
- (b) असीमित
- (c) इकाई से अधिक
- (d) इकाई से कम

2. "लाभ जोखिम सहन करने का पारितोषिक है।" इसे निम्न में से किसने कहा है?

- (a) हॉले
- (b) जे० बी० क्लार्क
- (c) नाईट
- (d) इनमें से कोई नहीं

3. बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, उसे कहते हैं

- (a) एकाधिकार
- (b) मोनोपसनी
- (e) द्वयाधिकार
- (d) इनमें से कोई नहीं

4. सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्न में से किसके विषय में किया जाता है ?

- (a) बाजार दिवस
- (b) अल्पकालीन बाजार
- (c) दीर्घकालीन बाजार
- (d) इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है

- (a) भूमि
- (b) श्रम
- (c) मुद्रा
- (d) पूँजी

6. भारत का केन्द्रीय बैंक कौन है?

- (a) भारतीय स्टेट बैंक
- (b) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
- (c) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
- (d) इनमें से कोई नहीं

7. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई

- (a) 1932 में
- (b) 1935 में
- (c) 1949 में
- (d) 1956 में

8. केन्द्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है

- (a) बैंक दर के जरिये
- (b) खुले बाजार प्रक्रिया के जरिये
- (c) सी आर आर के जरिये
- (d) इनमें से सभी

9. किस वर्ष में 14 व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया ?

- (a) 1960
- (b) 1968
- (c) 1969
- (d) 1980

10. भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गयी ?

- (a) 1950
- (b) 1955
- (c) 1960
- (d) 1965

11. प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित हैं

- (a) कृषि
- (b) खुदरा व्यापार
- (c) लघु उद्योग
- (d) इनमें से सभी

12. राष्ट्रीय आय के माप की विधियों में सम्मिलित है

- (a) आय विधि
- (b) व्यय विधि
- (c) मूल्य-जोड़ विधि
- (d) इनमें से सभी

13. मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है

- (a) मूल्य निर्धारण करना
- (b) मूल्य संचित करना
- (c) विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना
- (d) इनमें से सभी

14. पूँजी बाजार में कारोबार होता है

- (a) अल्पकालीन कोषों का
- (b) दीर्घकालीन कोषों का
- (c) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों कोषों का
- (d) इनमें से कोई नहीं

15. स्कन्ध विनिमय में कारोबार होता है

- (a) समता अंश का
- (b) पूर्वाधिकार अंश का
- (c) ऋणपत्र का
- (d) इनमें से सभी

16. विश्व व्यापार संगठन स्थित है

- (a) वाशिंगटन में
- (b) न्यूयार्क में
- (c) जेनेवा में
- (d) इनमें से कोई नहीं

17. उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है।

- (a) $Q_x = P_x$
- (b) $Q_x = f(A, B, C, D)$
- (c) $Q_x = D_x$
- (d) इनमें से कोई नहीं

18. निम्नलिखित में से कौन स्थायी लागत नहीं है ?

- (a) बीमा प्रीमियम
- (b) विज्ञापन व्यय
- (c) रहतिया लागत
- (d) ब्याज

19. गुणांक को निम्न में से किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है ?

- (a) $K = \frac{\Delta S}{\Delta L}$
- (b) $K = \frac{\Delta Y}{\Delta L}$
- (c) $K = 1 - S$
- (d) इनमें से कोई नहीं

20. केन्स के सिद्धान्त का संबंध है

- (a) प्रभावपूर्ण माँग प्रवृत्ति से
- (b) उपभोग प्रवृत्ति से
- (c) बचत प्रवृत्ति से
- (d) इनमें से सभी

21. वित्तीय बाजार व्यवस्था करते हैं

- (a) अल्पकालीन ऋण
- (b) दीर्घकालीन ऋण
- (c) (a) तथा (b) दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

22. निम्नलिखित में मुद्रा बाजार के अंग हैं

- (a) व्यापारिक बैंक
- (b) व्यापारिक पत्र
- (c) सहकारी बैंक
- (d) इनमें से सभी

23. निम्न में किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है ?

- (a) एडम स्मिथ
- (b) मार्शल
- (c) रॉबिन्स
- (d) इनमें से कोई नहीं

24. सीमान्त उपयोगिता की गणना किस प्रकार की जाती है ?

- (a) $\frac{\Delta TU}{\Delta Q}$
- (b) $\frac{\Delta MU}{\Delta Q}$
- (c) $\frac{\Delta Q}{\Delta TU}$
- (d) $\frac{\Delta Q}{\Delta MU}$

25. बजट में हो सकता है

- (a) आगम घाटे
- (b) वित्तीय घाटे
- (c) प्रारंभिक घाटे
- (d) इनमें से सभी

II. निम्नलिखित प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न में दो कथन (कथन I एवं कथन II) दिए गये हैं। इन कथनों के आधार पर प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए विकल्पों (a), (b), (c) और (d) में से सही विकल्प को चुनें:

- (a) दोनों कथन सही हैं
- (b) दोनों कथन गलत हैं

(c) कथन I सही है, परन्तु कथन II असत्य है

(d) कथन I असत्य है, परन्तु कथन II सही है।

26. कथन-I : पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है।

कथन-II : बाजार स्थिति के अध्ययन में पूर्ण प्रतियोगिताका महत्व है।

27. कथन-I : अच्छे गुणवाले वस्तुओं में आय प्रभाव शून्य होता है।

कथन-II : निम्न गुणवाले वस्तुओं में आय प्रभाव नकारात्मक होता है।

28. कथन-I : अप्रत्यक्ष करों द्वारा आयत वितरण में असमानता का बढ़ावा देता है।

कथन-II : अप्रत्यक्ष करों का अधिक भार गरीबों पर पड़ता है।

29. कथन-I : क्रमागत हास उत्पाद नियम दीर्घकाल में लागू होता है।

कथन-II : एक फर्म द्वारा श्रम की माँग व्युत्पन्न माँग होती है।

30. कथन-I : सामाजिक कल्याण कार्य काल्पनिक होते हैं।

कथन-II : प्रतिष्ठित सिद्धान्त में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने से बचत में वृद्धि होती है।

III. प्रश्न संख्या 31 से 34 में दो कॉलम (कॉलम I एवं कॉलम II) दिए गए हैं। दोनों कॉलमों के मिलान कर सही विकल्प चुनिए :

कॉलम-I

कॉलम-II

31. भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना

(a) माँग का नियम

32. नाबाई

(b) कृषि वित्त व्यवस्था

33. मार्शल

(c) वित्तीय घाटा

34. केन्द्रीय बजट

(d) 1955

IV. नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें तथा समझें और उसी के आधार पर दिए गए प्रश्न संख्या 35 के प्रश्नों के उत्तर विकल्प से चुनकर दें :

35. अनुच्छेद : आर्थिक एकत्रीकरण का अर्थ राष्ट्र के विभेदीकरण की वाणिज्यिक नीति है। इसके द्वारा केवल सम्मिलित देशों के व्यापार प्रतिबन्धों को कम किया जा सकता है। आर्थिक एकत्रीकरण देशों में पूर्वाधिकार व्यापार अनुबंधों से खुला व्यापार, कस्टम्स, बाजार एवं आर्थिक संगठनों पर निर्भर करता है। सदस्य देशों में पूर्वाधिकार व्यापार के कारण अन्य देशों की अपेक्षा प्रतिबन्ध का दर कम होता है।

I. आर्थिक एकत्रीकरण का अर्थ है

- (a) वाणिज्य नीति में विभेदीकरण
- (b) व्यापार अनुबन्ध
- (c) सामान्य बाजार
- (d) इनमें से कोई नहीं

II. आर्थिक एकत्रीकरण में परिवर्तन प्रभावित होता है

- (a). कस्टम्स द्वारा
- (b) राष्ट्रों के संगठन द्वारा
- (c) सामान्य बाजार द्वारा
- (d) इनमें से सभी

III. एक आर्थिक संगठन सबसे विकसित आर्थिक एकीकरण है, क्योंकि

- (a) यह वित्तीय नीति में एकरूपता लाता है
- (b) यह मौद्रिक नीति में एकरूपता लाता है
- (c) इसके द्वारा पूँजी का स्वतंत्र प्रयोग होता है।
- (d) इनमें से सभी

SECTION-B

प्रश्न संख्या 1 से 10 लघु उत्तरीय हैं तथा प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित हैं।

1. राष्ट्रीय आय क्या है ?
2. केन्द्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए।
3. माँग के नियम की विवेचना कीजिए।
4. समष्टि अर्थशास्त्र क्या है ?
5. मूल्य उपयोगिता की विवेचना कीजिए।
6. उत्पादन के साधनों को अंकित कीजिए।
7. मुद्रा के कार्यों की विवेचना कीजिए।
8. अवशेष भुगतान क्या है ?
9. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है ?
10. सरकारी बजट के महत्व की विवेचना कीजिए।

प्रश्न संख्या 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं तथा प्रत्येक के लिए 6 अंक निर्धारित हैं।

11. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
12. एकाधिकार में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है ?

13. आर्थिक पद्धति के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।
14. राष्ट्रीय आय की माप की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए।
15. विनिमय दर के निर्धारण विधियों की विवेचना कीजिए।

**बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...**

BiharboardQuestionpaper.com



अभी विजिट करें..

BiharboardQuestionpaper.com

BIHAR BOARD QUESTION PAPER
INTERMEDIATE EXAMINATION - 2012

इंटरमीडिएट परीक्षा - 2012

(ANNUAL / वार्षिक)

BUSINESS ECONOMICS

Time: 3 Hours 15 Minutes]

[Full Marks: 100

SECTION A

I. For question nos. 1 to 25, there are four alternatives of which only one is correct. Choose the correct alternative and mark it in the answer sheet:

1. What is the price flexibility of a necessities of demanded things?

- (a) Zero
- (b) Infinite
- (c) More than a unit
- (d) Less than unit

2. Profit is the award of bearance risk' who said this?

- (a) Halley
- (b) J. B. Clark
- (c) Night
- (d) None of these

3. The market situation in which there is only are consumer is called

- (a) Monopoly
- (b) Monopsani
- (c) Duopoly
- (d) None of these

4. On which matter it is decided of general value

- (a) market day
- (b) short term market
- (c) long term market
- (d) None of these

5. Following is not a source of origin

- (a) Land
- (b) Labour
- (c) Money
- (d) Capital

6. Who the Central Bank of India?

- (a) SBI
- (b) Central Bank of India
- (c) Reserve Bank of India
- (d) None of these

7. When was establish Reserve Bank of India?

- (a) In 1932
- (b) In 1935
- (c) In 1945
- (d) In 1956

8. In which year the nationalisation of the commercial bank ?

- (a) 1960
- (b) 1968
- (c) 1969
- (d) 1980

9. Central Bank can control by which

- (a) Bank Rate
- (b) Open market
- (c) CRR
- (d) All these

10. When was establish State Bank of India?

- (a) 1950
- (b) 1955
- (c) 1960
- (d) 1965

11. It is included in primary sector

- (a) Agriculture
- (b) Retail trade
- (c) Small business
- (d) All these

12. Methods of measurement of National Income is included in

- (a) Income method
- (b) Expenditure method
- (c) Price added method
- (d) All these

13. It is included in functions of money

- (a) Price determination
- (b) Price saving
- (c) Presentation of medium of exchange
- (d) All these

14. The business in capital market

- (a) short term funds
- (b) long term funds
- (c) Both of short and long term funds
- (d) None of these

15. The business in stock exchange is

- (a) Equity share
- (b) Preference shares
- (c) Debentures
- (d) All of these

16. Where is World Trade Organisation?

- (a) Washington
- (b) Newyork
- (c) Jeneva
- (d) None of these

17. It is expressed of production function

- (a) $Q_x = P_x$
- (b) $Q_x = F(A, B, C, D)$
- (c) $Q_x = D_x$
- (d) None of these

18. Which is not a fined cost?

- (a) Insurance premium
- (b) Advertisement expenses
- (c) Stock cost
- (d) Interest

19. Multiplier can be expressed as

- (a) $K = \frac{\Delta S}{\Delta L}$
- (b) $K = \frac{\Delta Y}{\Delta L}$
- (c) $K = I - S$
- (d) None of these

20. The principle of Ken's is related to

- (a) Effective demand nature
- (b) Consume nature
- (c) Saving nature
- (d) All of these

21. Arrangements of financial marketing

- (a) short term loan
- (b) long term loan
- (c) Both (a) and (b)
- (d) None of these

22. The organ/parts of money market

- (a) Commercial Bank
- (b) Commercial Card
- (c) Co-operative Bank
- (d) All of these

23. Who is called "The father of economics"?

- (a) Adam Smith
- (b) Marshall
- (c) Robinsons
- (d) None of these

24. Calculation of marginal cost on that

- (a) $\frac{\Delta TU}{\Delta Q}$
- (b) $\frac{\Delta MU}{\Delta Q}$
- (c) $\frac{\Delta Q}{\Delta TU}$
- (d) $\frac{\Delta Q}{\Delta MU}$

25. It can be in budget

- (a) Revenue losses
- (b) Financial losses
- (c) Preliminary losses
- (d) All of these

II. In questions nos. 26 to 30, there are two statements (statements I and statement II) against each question. Choose the correct option for each question for each question out of options (a), (b), (c) and (d) on the basis of given statements:

26. Consider the following statements:

Statement-I: Perfect competition is hypothetical.

Statement-II: Perfect competition has importance to study market situation.

- (a) Both the statements are true and statement II is the correct explanation of statement I.
- (b) Both the statements are true, but statement II is not the correct explanation of statement I.
- (c) Statement I is true, but statement II is false.
- (d) Statement I is false, but statement II is true.

27. Consider the following statements :

Statement-I: Income effect is zero in case of superior goods.

Statement-II: Income effect is negative in case of inferior goods.

- (a) Both the statements are true and statement II is the correct explanation of statement I.
- (b) Both the statements are true, but statement II is not the correct explanation of statement I.
- (c) Statement I is true, but statement II is false.
- (d) Statement I is false, but statement II is true.

28. Consider the following statements:

Statement- I: Indirect taxes promote inequalities in the distribution of income.

Statement-II: The poor bear more burden of indirect taxes.

- (a) Both the statements are true and statement II is the correct explanation of statement I.
- (b) Both the statements are true, but statement II is not the correct explanation of statement I.
- (c) Statement I is true, but statement II is false.
- (d) Statement I is false, but statement II is true.

29. Consider the following statements:

Statement- I: The law of diminishing return holds good in the long period.

Statement-II: The demand for labour by firm is derived demand.

- (a) Both the statements are true and statement II is the correct explanation of statement I.
- (b) Both the statements are true, but statement II is not the correct explanation of statement I.
- (c) Statement I is true, but statement II is false.
- (d) Statement I is false, but statement II is true.

30. Consider the following statements:

Statement-I: Social welfare function is hypothetical.

Statement-II: In classical theory, an increase in money supply leads to increase in savings.

- (a) Both the statements are true and statement II is the correct explanation of statement I.
- (b) Both the statements are true, but statement II is not the correct explanation of statement I.
- (c) Statement I is true, but statement II is false.
- (d) Statement I is false, but statement II is true.

III. In question nos. 31 to 34, there are two columns (column I and column II). Match the correct option between the two columns:

Column-I

Column-II

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 31. Establishment of SBI | (a) Law of demand |
| 32. NABARD | (b) Agricultural financing |
| 33. Marshall | (c) Fiscal deficit |
| 34. Union Budget | (d) 1955 |

IV. In question no. 35, there is a paragraph. You have to read and understand the paragraph and then mark your answer from the given options:

35. Paragraph: The theory of economic integration refers to the commercial policy of discrimination of states. It reduces trade business only among nations jointly together. The degree of economic integration ranges from preferential trade agreement to free trade, customs, markets and economic unions. Preferential trade provides barrier lowe barriers on trade among participating nations than on trade with non-member nation.

I. Economic integration means

- (a) Discriminating commerical policy
- (b) Trade agreements
- (c) Common market
- (d) None of these

II. Changes in economic aggregation are affected

- (a) by customs
- (b) by the organization of nations
- (c) By general market
- (d) All of these

III. An economic organization is the most developed economic aggregation, because

- (a) It brings uniformity in financial policy
- (b) This brings uniformity in monetary policy
- (c) It is used free of capital by
- (d) All of these

SECTION - B

Question Nos. 1 to 10 are short answer type and each carries 3 marks:

1. What is national income?
2. Define the functions of Central Bank.
3. Explain law of demand.
4. What do you mean by macro economics?
5. Consider the price utility.
6. Write the sources of production.
7. Write the function of money.
8. What is Remains Payments?
9. What do you mean by NNP?
10. Explain the importance of Government budget.

Question Nos. 11 to 15 are long answer type and each carries 6 marks:

11. Discuss the characteristics of perfect competition.
12. How does price determination in monopoly?
13. Explain different types of economic policy.
14. Explain different process of measurement of national income.
15. Define different method of exchange rate

**बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...**

BiharboardQuestionpaper.com



अभी विजिट करें..

BiharboardQuestionpaper.com